



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 28—जून 3, 2005 (ज्येष्ठ 7, 1927)

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28—JUNE 3, 2005 (JYAISTHA 7, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued
by
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

सहयोगी एवं अनुषंगी समूह

मुंबई, दिनांक 16 मई 2005

(5) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

(6) स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र

(7) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

एसबीडी क्र. 1/2005--भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38 वां) की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक श्री ए.जी. कलमनकर के स्थान पर श्री एस.के. हरिहरन, उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी), भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट केन्द्र, मुंबई को दिनांक 16.05.2005 से निम्नलिखित सहयोगी बैंकों के निदेशक के रूप में नामित करता है :--

ए.के. पुरवार
अध्यक्ष

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2005

(1) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर

(2) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

(3) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर

(4) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर

सं. यू-16/53/94/(असम) चि. शाखा-2--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.05.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा

डॉ. (श्रीमती) बी. डेका व डॉ. (श्रीमती) एल. दजारिका अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर एक वर्ष की अवधि के लिए 01.01.05 से 31.12.05 व 19.08.04 से 18.08.05 यथानुसार राजकीय चिकित्सा आयुक्त (पूर्व क्षेत्र), कोलकाता द्वारा निर्धारित तिनसुकिया व गौहाटी क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

मई दिल्ली, दिनांक 3 मई 2005

सं. यू. 16/59/कर्ना./2003-चिकि, 2--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.05.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र) बंगलौर द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र
डॉ. टी. रंगनाथस्वामी	02.06.2005 से 01.06.2006	मलेश्वरम
		डॉ. कमलेश कालरा चिकित्सा आयुक्त

क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र

मुंबई-400 013, दिनांक 15 अप्रैल 2005

शुद्धिपत्र

क्रमांक : 31-वी-34-11/स्था. समिति/समन्वय एकक--भारत सरकार
के राजपत्र भाग-3 खण्ड-4 दिनांक 11.12.2004 में छपी अधिसूचना

संख्या 31-वी-34-11/स्था. समिति/समन्वय, दिनांक 16.09.2004 जो कि स्थानीय समिति बार्शी के पुनर्गठन से संबंधित है, में निम्नलिखित सुधार करने का कष्ट करें :--

“श्री हंसराज हनुमानदास झंवर” क्रमांक-7 को “विनियम-10ए-1(इ)” की बजाय “विनियम-10ए-1(डी)” के अधीन पढ़ा जाये।

ए.के. सिन्हा
अपर आयुक्त

फरीदाबाद, दिनांक 2005

सं. 13वी. 34/13/1/89-94-05-हि. शाखा--भारत सरकार के राजपत्र के भाग-3, खण्ड-4 में दिनांक 10.11.1994 को प्रकाशित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अधिसूचना संख्या 13वी. 34/13/1/89-94 प्रशासन हरि दिनांक 01.10.1994 में आंशिक संशोधन करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10-क के उप विनियम (2)(1) के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय समिति धारुहेड़ा के लिए अधिसूचना में इसके प्रकाशन की तिथि में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :--

विनियम 10-क(2)(घ) के अंतर्गत (नियोजकों के प्रतिनिधि)

1. श्री के.के. अग्रवाल, उपप्रधान सदस्य
मैसर्स: हीरो हाण्डा लि. धारुहेड़ा
जिला-रेवाड़ी।
2. श्री एन.पी. सिंह, सदस्य
मैसर्स: आटो मैक्स इण्डिया लि.,
धारुहेड़ा, जिला-रेवाड़ी।

विनियम 10-क(1)(ई) के अंतर्गत (कर्मचारियों के प्रतिनिधि)

1. राजवीर सुपुत्र श्री रघुबीर सिंह, सदस्य
मार्फत मैसर्स: हीरो हाण्डा लि.,
धारुहेड़ा, गांव देहलावास
पोस्ट आफिस: गुलाबपुर
जिला-रेवाड़ी।
2. श्री राजेश यादव सुपुत्र श्री परसराम, सदस्य
प्रधान मैसर्स: आशी इण्डिया लि.,
गांव दामलावास पो. आ. पलहावास
जिला-रेवाड़ी।

टी.के. भट्टाचार्य
क्षेत्रीय निदेशक

STATE BANK OF INDIA

The 03rd May 2005

ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP

Mumbai, the 16th May 2005

SBD. No. 1/2005.—In terms of clause (c), Sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the State Bank of India hereby nominates Shri S. K. Hariharan, Dy. Managing Director & Group Executive (A&S), State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai, as a Director on the Boards of the following Associate Banks w.e.f. 16th May 2005 vice Shri A.G. Kalmankar.

1. State Bank of Bikaner & Jaipur
2. State Bank of Hyderabad
3. State Bank of Indore
4. State Bank of Mysore
5. State Bank of Patiala
6. State Bank of Saurashtra
7. State Bank of Travancore

A.K. PURWAR
Chairman

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 29th March 2005

No. U-16/53/94/Med.II/(Assam)—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Kolkata for the purpose, of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

	Name	Period	Name of Centre
1.	Dr. (Mrs.) B. Deka	1.1.2005 to 31.12.2005	Tinsukia
2.	Dr. (Mrs.) L. Hazarika	19.8.2004 to 18.8.2005	Guwahati

DR. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

No. U-16/53/karnt/2003/Med.II—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for the areas to be allocated by State Medical Commissioner, (SZ), Bangalore for the purpose, of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of Centre
Dr. T. Ranganathaswamy	2.6.2005 to 1.6.2006	Malleshwaram

DR. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

REGIONAL OFFICE MAHARASHTRA

Mumbai-13, the 15th April 2005

CORRIGENDUM

No. 31-V-34-11/L.Cs/Co-ordn—In the notification No. 31-V-34-11/L.Cs/Co-ordn dated 16.9.2004 regarding reconstitution of Local Committee Barshi published in part III Section IV of the Gazette of India dated 18.12.2004, the following correction be carried out.

Read Sr. No. 7 Shri Hansraj Hanumandas Zanwar under the title 'UNDER REGULATION 10-A-1 (d)' instead of 'UNDER REGULATION 10-A-1 (e)'.

By Order

A. K. SINHA
Additional Commissioner

Faridabad, the 2005

No. 13.V.34/13/1/89-94-05-Benefit—In partial modification of Employees' State Insurance Corporation Notification No. 13.V.34/13/1/89-94 Admn. Hr. dated 10.11.94 published in Government of India Gazette Part-III, Section 4, on 01.10.94 it is notified that in view of provision of Sub-Regulation (2),

(1) of Regulation 10-A of Employees' State Insurance (General) Regulation 1950, the following changes have been incorporated w.e.f. the date of publication of notification for the Local Committee Dharuhera, as detailed below:—

UNDER REGULATION 10-A (2) (d) (Employer's Representatives)

- | | |
|---|--------|
| 1. Sh. K. K. Aggarwal, Vice president
M/s Hero Honda Ltd. Dharuhera
Distt. Rewari | Member |
| 2. Sh. N.P. Singh
M/S. Auto Max India Ltd.
Dharuhera Distt. Rewari | Member |

UNDER REGULATION 10-A (1) (e) (Employees' Representatives)

- | | |
|--|--------|
| 1. Sh. Rajbir S/o Sh. Ragubir Singh
C/o Hero Honda Ltd. Dharuhera
Village Dehlawas, P.O. Gulabpur
Distt Rewari | Member |
| 2. Sh. Rajesh Yadav S/o Sh. Paras Ram
President M/s. ASHI India Ltd.
Village Damlawas P.O. Palhawas
Distt. Rewari | Member |

BY ORDER

T.K. BHATTACHARYA
Regional Director